



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, जुलाई 4—जुलाई 10, 2004 शनिवार/आषाढ़ 13—आषाढ़ 19, 1926
No. 28] NEW DELHI, JULY 4—JULY 10, 2004 SATURDAY/ASADHA 13—ASADHA 19, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2004

सा. का. नि. 225.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम “केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियमावली, 2004” है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14, उप नियम (2) में स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि, जहाँ यौन उत्पीड़न की शिकायत, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3ग के अभिप्राय के अंतर्गत आती हो, वहाँ प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग अथवा कार्यालय में ऐसी शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के लिए गठित की गई शिकायत समिति को, ऐसे नियमों के प्रयोजन से अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया जाँच प्राधिकारी समझा जाएगा और यदि, यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के लिए शिकायत समिति के लिए कोई पृथक प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है तो शिकायत समिति, जहाँ तक हो सके, इन नियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार व्यवहार्य तरीके से जाँच-पड़ताल करे।”

[फा. संख्या-11012/5/2001-स्थापना (क)]

श्रीमती प्रतिभा मोहन, निदेशक

पाद टिप्पण : मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 20-11-1965 की अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्थापना (क) द्वारा प्रकाशित किए गए और तदनंतर भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में निम्नलिखित तारीखों को निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :—

का.आ. 1149 दिनांक अप्रैल 13, 1966
का.आ. 1596 दिनांक जून 04, 1966
का.आ. 2007 दिनांक जुलाई 09, 1966
का.आ. 2648 दिनांक सितम्बर 02, 1966
का.आ. 2854 दिनांक अक्टूबर 01, 1966

का.आ. 1282 दिनांक अप्रैल 15, 1967
का.आ. 1457 दिनांक अप्रैल 29, 1967
का.आ. 3253 दिनांक सितम्बर 16, 1967
का.आ. 3530 दिनांक अक्टूबर 07, 1967
का.आ. 4151 दिनांक नवम्बर 25, 1967
का.आ. 321 दिनांक मार्च 09, 1968
का.आ. 1441 दिनांक अप्रैल 27, 1968
का.आ. 1870 दिनांक जून 01, 1968
का.आ. 3423 दिनांक सितम्बर 28, 1968
का.आ. 5008 दिनांक दिसम्बर 27, 1969
का.आ. 397 दिनांक फरवरी 07, 1970
का.आ. 35217 दिनांक मितम्बर 25, 1971
का.आ. 249 दिनांक जनवरी 01, 1972
का.आ. 990 दिनांक अप्रैल 22, 1972
का.आ. 1600 दिनांक जुलाई 01, 1972
का.आ. 2789 दिनांक अक्टूबर 14, 1972

का.आ. 929 दिनांक मार्च 31, 1973

का.आ. 1648 दिनांक जुलाई 06, 1974

का.आ. 2742 दिनांक जुलाई 31, 1976
का.आ. 4664 दिनांक दिसम्बर 11, 1976

का.आ. 3062 दिनांक अक्टूबर 08, 1977
का.आ. 3573 दिनांक नवम्बर 26, 1977
का.आ. 3574 दिनांक नवम्बर 26, 1977
का.आ. 3671 दिनांक दिसम्बर 03, 1977

का.आ. 2464 दिनांक सितम्बर 2, 1978
का.आ. 2465 दिनांक सितम्बर 02, 1978
का.आ. 920 दिनांक फरवरी 17, 1979
का.आ. 1769 दिनांक जुलाई 05, 1980

का.आ. 264 दिनांक जनवरी 24, 1981
का.आ. 2126 दिनांक अगस्त 08, 1981
का.आ. 2203 दिनांक अगस्त 22, 1981
का.आ. 2512 दिनांक अक्टूबर 03, 1981

का.आ. 168 दिनांक जनवरी 23, 1982

अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था.(क) दिनांक जुलाई 05, 1985

अधिसूचना सं. 11012/05/85-स्था.(क) दिनांक जुलाई 29, 1985

अधिसूचना सं. 11012/06/85-स्था.(क) दिनांक अगस्त 06, 1985

का.आ. 5637 दिनांक दिसम्बर 21, 1985

का.आ. 5743 दिनांक दिसम्बर 28, 1985

अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था.(क) दिनांक नवम्बर 26, 1986

का.आ. 830 दिनांक मार्च 28, 1987

का.आ. 831 दिनांक मार्च 28, 1987

का.आ. 1591 दिनांक जून 27, 1987

का.आ. 1825 दिनांक जुलाई 18, 1987

का.आ. 3060 दिनांक अक्टूबर 15, 1988

का.आ. 3061 दिनांक अक्टूबर 16, 1988

का.आ. 2207 दिनांक सितम्बर 16, 1989

का.आ. 1084 दिनांक अप्रैल 28, 1990

का.आ. 2208 दिनांक अगस्त 25, 1990

का.आ. 1481 दिनांक जून 13, 1992

सा.का.नि. 289 दिनांक जून 20, 1992/भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i)

सा.का.नि. 589 दिनांक दिसम्बर 26, 1992

सा.का.नि. 499 दिनांक अक्टूबर 08, 1994

सा.का.नि. 276 दिनांक जून 10, 1995

सा.का.नि. 17 दिनांक फरवरी 20, 1996

सा.का.नि. 125 दिनांक मार्च 16, 1996

सा.का.नि. 417 दिनांक अक्टूबर 05, 1996

सा.का.नि. 337 दिनांक सितम्बर 02, 2000

सा.का.नि. 420 दिनांक अक्टूबर 28, 2000

सा.का.नि. 211 दिनांक अप्रैल 14, 2001

सा.का.नि. 60 दिनांक फरवरी 13, 2002

सा.का.नि. 2 दिनांक जनवरी 03, 2004

सा.का.नि. 113 दिनांक अप्रैल 10, 2004

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 1st July, 2004

G.S.R. 225.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in rule 14 in sub-rule (2), before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of rule 3 C of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Complaints Committee established in each Ministry or Department or Office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of these rules and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in

accordance with the procedure laid down in these rules.”

[F.No. 11012/5/2001-Estt. (A)]

SMT. PRATIBHA MOHAN, Director

Foot note : The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. 7/2/63-Estt. (A) dated 20-11-65 and subsequently amended by Notifications published in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-section (ii) under the following numbers and date :—

S. O. 1149 dated 13th April, 1966

S. O. 1596 dated 4th June, 1966

S.O. 2007 dated 9th July, 1966

S.O. 2648 dated 2nd September, 1966

S.O. 2854 dated 1st October, 1966

S.O. 1282 dated 15th April, 1967

S.O. 1457 dated 29th April, 1967

S.O. 3253 dated 16th September, 1967

S.O. 3530 dated 7th October, 1967

S.O. 4151 dated 25th November, 1967

S.O. 321 dated 9th March, 1968

S.O. 1441 dated 27th April, 1968

S.O. 1870 dated 1st June, 1968

S.O. 3423 dated 28th September, 1968

S.O. 5008 dated 27th December, 1969

S.O. 397 dated 7th February, 1970

S.O. 35217 dated 25th September, 1971

S.O. 249 dated 1st January, 1972

S.O. 990 dated 22nd April, 1972

S.O. 1600 dated 1st July, 1972

S.O. 2789 dated 14th October, 1972

S.O. 929 dated 31st March, 1973

S.O. 1648 dated 6th July, 1974

S.O. 2742 dated 31st July, 1976

S.O. 4664 dated 11th December, 1977

S.O. 3062 dated 8th October, 1977

S.O. 3573 dated 26th November, 1977

S.O. 3574 dated 26th November, 1977

S.O. 3671 dated 3rd December, 1977

S.O. 2464 dated 2nd September, 1978

S.O. 2465 dated 2nd September, 1978

S.O. 920 dated 17th February, 1979

S.O. 1769 dated 5th July, 1980

S.O. 264 dated 24th January, 1981

S.O. 2126 dated 8th August, 1981

S.O. 2203 dated 22nd August, 1981
 S.O. 2512 dated 3rd October, 1981
 S.O. 168 dated 23rd January, 1982
 Notification No. 11012/15/84-Estt. (A) dated 5th July, 1985
 Notification No. 11012/05/85-Estt. (A) dated 29th July, 1985
 Notification No. 11012/06/85-Estt. (A) dated 6th August, 1985
 S.O. 5637 dated 21st December, 1985
 S.O. 5743 dated 28th December, 1985
 Notification No. 11012/24/85-Estt. (A) dated 26th November, 1986
 S.O. 830 dated 28th March, 1987
 S.O. 831 dated 28th March, 1987
 S.O. 1591 dated 27th June, 1987
 S.O. 1825 dated 18th July, 1987
 S.O. 3060 dated 15th October, 1988
 S.O. 3061 dated 16th October, 1988

S.O. 2207 dated 16th September, 1989
 S.O. 1084 dated 28th April, 1990
 S.O. 2208 dated 25th August, 1990
 S.O. 1481 dated 13th June, 1992
 G.S.R. 289 dated 20th June, 1992/In Part. II Sec. 3, Sub-Sec. (i)
 G.S.R. 589 dated 26th December, 1992
 G.S.R. 499 dated 8th October, 1994
 G.S.R. 276 dated 10th June, 1995
 G.S.R. 17 dated 20th February, 1996
 G.S.R. 125 dated 16th March, 1996
 G.S.R. 417 dated 5th October, 1996
 G.S.R. 337 dated 2nd September, 2000
 G.S.R. 420 dated 28th October, 2000
 G.S.R. 211 dated 14th April, 2001
 G.S.R. 60 dated 13th February, 2002
 G.S.R. 2 dated 3rd January, 2004
 G.S.R. 113 dated 10th April, 2004

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2004

सा. का. नि. 226.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निवारक संक्रिया निदेशालय (समूह "ग" और समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1978 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के संभार तंत्र निदेशालय में समूह "ग" और समूह "घ" के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के संभार तंत्र निदेशालय में समूह "ग" और समूह "घ" पद भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनके वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. आरंभिक गठन.—

(क) ज्येष्ठ कर सहायक : (i) ऐसे सभी व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ के समय नियमित आधार पर सहायक की श्रेणी में नियुक्त किए गए थे, उन्हें इन नियमों के अधीन ज्येष्ठ कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा। इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा को अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्रता का विनिश्चय करने के लिए विचार में लिया जाएगा।

(ii) वर्तमान कर्मचारियों से, कम्प्यूटर अनुप्रयोजन और सुसंगत प्रक्रियाओं में समय समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित या अपयुक्त विभागीय परीक्षा को दो वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी, जिसके न हो सकने पर वे अगली वेतनवृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) कर सहायक : (i) ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर नियुक्त किए गए हैं, और इन नियमों के प्रारंभ के समय उच्च श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए हैं, उन्हें इन नियमों के अधीन कर सहायक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और ऐसे व्यक्तियों द्वारा इन नियमों के प्रारंभ के पहले अपनी श्रेणी में की गई सेवा को प्रोन्नति आदि के प्रयोजन के लिए कर सहायक के पद पर की गई नियमित सेवा के रूप में विचार में लिया जाएगा।

(ii) कोई व्यक्ति जो नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए हैं और जो इन नियमों के प्रारंभ के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठता सूची के भीतर आते हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित विभागीय कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की तारीख से कर सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया समझा जाएगा।

(iii) उच्च श्रेणी लिपिक को समूह में ज्येष्ठ रखा जाएगा, अवर श्रेणी लिपिक को उच्च श्रेणी लिपिक से नीचे रखा जाएगा।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. ज्येष्ठ कर सहायक	02* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय)	5000-150- 8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा				
11	12				
शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे कर सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और कम्प्यूटर प्रचालन और				

(ii) कोई व्यक्ति जो नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक का पद धारण किए हुए हैं और जो इन नियमों के प्रारंभ के समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठता सूची के भीतर आते हैं, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित विभागीय कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की तारीख से कर सहायक के पद पर प्रोन्नत किया गया समझा जाएगा।

(iii) उच्च श्रेणी लिपिक को समूह में ज्येष्ठ रखा जाएगा, अवर श्रेणी लिपिक को उच्च श्रेणी लिपिक से नीचे रखा जाएगा।

6. निरहता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. ज्येष्ठ कर सहायक	02* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित) (अनुसचिणीय)	5000-150- 8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा				
11	12				
शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे कर सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और कम्प्यूटर प्रचालन और				

सुसंगत प्रक्रियाओं में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा जिन्होंने विहित अर्हक सेवा अवधि पूरी नहीं की है परन्तु विहित परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता

- | | |
|--|----------|
| (i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —अध्यक्ष |
| (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —सदस्य |
| (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —सदस्य |
| (iv) सहायक आयुक्त, आयकर | —सदस्य |

टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iv) में कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिकारी, भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

1	2	3	4	5	6
2. कर सहायक	11* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय)	4000-100- 6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
20—27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विभाग में कार्यरत सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विधा में स्नातक की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता; (ii) आंकड़ा प्रविष्टि में 8000 कुंजी अवनयम प्रति घंटा की गति रखता हो।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर

7

राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

11

12

90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति :

ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों और प्रधान हवलदारों में से जिन्होंने नियमित आधार पर उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की हो और निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों, अर्थात् :—

(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता, और

(ख) आंकड़ा प्रविष्टि की गति 5000 कुंजी अवनयन प्रति घंटा हो और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ क्रमशः हिन्दी या अंग्रेजी टंकण का ज्ञान।

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता

- | | |
|--|----------|
| (i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —अध्यक्ष |
| (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —सदस्य |
| (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —सदस्य |
| (iv) सहायक आयुक्त, आयकर | —सदस्य |

टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iv) में कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिकारी, भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

1	2	3	4	5	6
3. अवर श्रेणी लिपिक	2* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) (अनुसचिवीय)	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

11	12
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	<p>(i) 50 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर ऐसे हवलदारों और अभिलेखपालों में से भरी जाएंगी जो मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता रखते हों और बिना किसी आयु-सीमा के श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों।</p> <p>(ii) 50 प्रतिशत रिक्तियां हवलदार, अभिलेखपाल, सिपाही, गेस्टेटरन आपरेटर में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिनके पास मैट्रिकुलेशन या कोई समतुल्य अर्हता है तथा अपनी-अपनी श्रेणियों में 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों और विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उसे पोषक प्रवर्गों में से अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण परीक्षा के साथ।</p> <p>टिप्पण : (क) परीक्षा की योग्यता के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अनु.जा./अनु.जन.जा. के लिए 50 वर्ष);</p> <p>(ख) खंड (iii) के अधीन किसी विशिष्ट वर्ष की न भरी गई रिक्तियों को अग्रणीत नहीं किया जाएगा।</p> <p>(ग) यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों से अधिक कर्मचारी उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तो, ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों पर पश्चात्पूर्वी वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर, पश्चात्पूर्वी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।</p>

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता
(i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—अध्यक्ष
(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—सदस्य
(iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय	—सदस्य
(iv) सहायक आयुक्त, आयकर	—सदस्य
टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iv) में कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिकारी, भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।	

1	2	3	4	5	6
4. कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
28 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार विभाग में कार्यरत सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत	या		

7	8	9	10
में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। सिवाय उन अभ्यर्थियों के लिए जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य/वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में हिन्दी या अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिन्दी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो, या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ या परीक्षा के माध्यम के रूप में दोनों में से एक विषय के साथ और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में दूसरे विषय के साथ स्नातक की डिग्री और हिन्दी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद के पाठ्यक्रम का कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या केन्द्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव।		

11	12
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/ स्थानांतरण द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से होगा जो :— (क) (i) सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) 4000-8000 रु. या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा करके पद धारण किए हुए हों; और (iii) 3050-4590 रु. या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा करके पद धारण किए हुए हों; या (ख) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 2 में विहित शैक्षिक या अन्य अर्हताएं रखते हों। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, किन्तु यह महानिदेशक, राजस्व आसूचना द्वारा पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है।

10/10/04

13			14		
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		
1	2	3	4	5	6
5. आशुलिपिक श्रेणी-II	2* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	5000-150 8000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
		8	9	10	
18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)		(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, और (ii) हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कुछ नहीं।	
टिप्पण : भर्ती अभिकरण द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी।					
11		12			
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (सीधी भर्ती केवल तभी प्रत्यावर्तित की जाएगी जब पोषक प्रवर्ग प्रत्याप्त संख्या में न हो या जब पद को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरे जाने की संभावना न हो।)		ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-III की प्रोन्नति से जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो, जिसके न हो सकने पर; केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा :— (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने 4000-100-6000 रु. के वेतनमान में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और आशुलिपि (अंग्रेजी या हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हों। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठ बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। तथापि, प्रतिनियुक्ति की अवधि, महानिदेशक, राजस्व आसूचना द्वारा पांच वर्ष तक विस्तारित की जा सकती है।			
13		14			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—		लागू नहीं होता			
(i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय		—अध्यक्ष			
(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय		—सदस्य			
(iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय		—सदस्य			
(iv) सहायक आयुक्त, आयकर		—सदस्य			
टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iv) में कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।					

1	2	3	4	5	6
6. आशुलिपिक श्रेणी-III	2* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	4000-100 6000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी।	(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, और (ii) हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11	12
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां नियमित आधार पर सुदृढ़ पद धारण करने वाले और सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तंभ 8 में विहित अर्हताएं रखने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेंगी।	लागू नहीं होता

13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
7. डाइवर श्रेणी-I	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	4500-125- 7000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11

शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

12

प्रोन्नति :

संभार तंत्र निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और उसके काडर एककों के ऐसे ड्राइवर श्रेणी-II में से जिन्होंने छह वर्ष नियमित सेवा की है और नीचे विहित समुचित स्तर की व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

- (i) अंग्रेजी अंक और संख्या पढ़ने में योग्य होना चाहिए;
- (ii) यातायात विनियमों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए;
- (iii) पेट्रोल और डीजल इंजन कार्य प्रणाली का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा चालन त्रुटियों को पता लगाने और लघु खराबियों को सुधारने में योग्य होना चाहिए;
- (iv) कारबुरेटर, प्लग आदि को साफ करने में समर्थ हो।

टिप्पणी : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले पूरी कर ली है।

13

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

14

लागू नहीं होता

- (i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय —अध्यक्ष
- (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य
- (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य
- (iv) सहायक आयुक्त, आयकर —सदस्य

टिप्पण : जहां (i) से (iv) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

1	2	3	4	5	6
8. ड्राइवर श्रेणी-II	1* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अनुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता
7	लागू नहीं होता	8	लागू नहीं होता	9	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11

शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

12

ऐसे ड्राइवरों (सामान्य श्रेणी) की प्रोन्नति जिन्होंने संभार तंत्र निदेशालय में 9 वर्ष नियमित सेवा की है और नीचे विहित समुचित स्तर की व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

- (i) अंग्रेजी अंकों और संख्याओं को पढ़ने में योग्य होना चाहिए;

12

- (ii) त्रुटियों का पता लगाने और चालन की लघु मरम्मत को कार्यान्वित करने के योग्य होना चाहिए;
 (iii) यातायात विनियमों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए;
 (iv) पहियों को बदलने और टायरों को सही तरह से फुलाने के योग्य होना चाहिए।

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता

- (i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय —अध्यक्ष
 (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य
 (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य
 (iv) सहायक आयुक्त, आयकर —सदस्य

टिप्पण : जहां (i) से (iv) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

1	2	3	4	5
9. ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	2* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	लागू नहीं होता।
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	23 से 30 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार शिथिल करके सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक : मोटर कार के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति रखता हो और मोटर यांत्रिकी का ज्ञान तथा मोटर कार चालन में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से VIII स्तर उत्तीर्ण।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11

आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

12

आमेलन :

संभार तंत्र निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के स्तंभ 8 की अर्हता रखने वाले नियमित और समूह "घ" कर्मचारियों में से, स्टाफ कार चालन के लिए आवश्यक क्षमता स्तर को ध्यान में रखने के निर्देश के साथ पद पर उपयुक्तता के लिए चालन की परीक्षा के परिणाम पर या अन्य मंत्रालय या विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर का पद धारण करने वाले व्यक्तियों का आमेलन।

टिप्पण : अभ्यर्थियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट, आयु सीमा तक पुष्टि करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

13

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- | | |
|--|----------|
| (i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —अध्यक्ष |
| (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —सदस्य |
| (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —सदस्य |
| (iv) सहायक आयुक्त, आयकर | —सदस्य |

टिप्पण : जहां (i) से (iv) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

14

लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
10. ज्येष्ठ गेस्टेटर आपरेटर	1* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित अननुसचिबीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन
6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11

शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

12

ऐसे गेस्टेटर आपरेटर (ओ जी) और दफ्तरी में से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने 4 वर्ष नियमित सेवा की हो और गेस्टेटर मशीन के प्रचालन और रखरखाव में प्रवीण हो।

13

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- | | |
|--|----------|
| (i) आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —अध्यक्ष |
| (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —सदस्य |
| (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र, निदेशालय | —सदस्य |
| (iv) सहायक आयुक्त, आयकर | —सदस्य |

टिप्पण : जहां (i) से (iv) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

14

लागू नहीं होता

1	2	3	4	5
11. अभिलेखा पाल	1* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2750-70-3800-75-4400 रु.	अचयन

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे गेस्टेटर आपरेटर (ओ जी) और दफ्तरी में से प्रोन्नति जिन्होंने 4 वर्ष नियमित सेवा की हो।

13	14
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :— (i) आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —अध्यक्ष (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य (iii) उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य (iv) सहायक आयुक्त, आयकर —सदस्य	लागू नहीं होता।
टिप्पण : जहां (i) से (iv) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।	

1	2	3	4	5
12. प्रधान हवलदार	3* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सेवा समूह "घ" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	3050-75-3950-80-4590 रु.	अचयन

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे हवलदार की श्रेणी से जिसने श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो।

13

14

समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता।

- (i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —अध्यक्ष
(ii) दो उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य
(iii) आयकर अधिकारी —सदस्य

टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iii) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

1	2	3	4	5
13. हवलदार	6* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "घ" अराजपत्रित, अननुसचिपीय	2750-70-3800-75-4400 रु.	अचयन

6	7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे सिपाही की श्रेणी में से जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की हो।

13

14

समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता।

- (i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —अध्यक्ष
(ii) दो उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य
(iii) आयकर अधिकारी —सदस्य

टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iii) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

1	2	3	4	5	6
14. सिपाही	9* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित, अननुसचिपीय	2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। सिवाय उन अभ्यर्थियों के जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मिडिल स्तर टिप्पण—अभ्यर्थियों से शारीरिक मान रखने की अपेक्षा की जाएगी और उन्हें नीचे विनिर्दिष्ट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अर्थात् :— पुरुष अभ्यर्थियों के लिए :— शारीरिक मान (न्यूनतम) : ऊँचाई—157.5 सेमी (गड़वालियों, असमियों, गोरखाओं और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 5 सेमी शिथिल की जा सकती है।) सीना—81 सेमी (पूरा फुलाने पर न्यूनतम 5 सेमी फैलाव के साथ) शारीरिक परीक्षा : पैदल चलना—15 मिनट में 1600 मीटर साइकिल चलाना—30 मिनट में 8 कि.मी. महिला अभ्यर्थियों के लिए :— शारीरिक मान (न्यूनतम) : ऊँचाई—152 सेमी वजन—48 किग्रा. (गड़वालियों, असमियों, गोरखाओं और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए ऊँचाई 2.5 सेमी और वजन 2 किग्रा. शिथिल किया जा सकता है।) शारीरिक परीक्षा : पैदल चलना—20 मिनट में 1 कि.मी. साइकिल चलाना—25 मिनट में 3 कि.मी. टिप्पण : उपर्युक्त शारीरिक मान/परीक्षा प्रोन्नति द्वारा, यदि कोई हो, भरे जाने वाले पद पर भी लागू होगा।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

11	12
85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। 15 प्रतिशत आमेसन द्वारा।	संभार तंत्र निदेशालय में फराश, चौकीदार, सफाईवाला या अन्य समूह "घ" कर्मचारियों के काडर में से आमेसन (परन्तु यह तब जब कि समूह "घ" कर्मचारियों द्वारा धारित पदों का वेतनमान फराश, चौकीदार, सफाईवाला के वेतनमान से समान हो) निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा, अर्थात् :— (i) उन्होंने कम से कम पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; (ii) वे कम से कम प्रारंभिक साक्षरता रखते हों, और उन्हें इसका सबूत योग्यता परीक्षा के माध्यम से हिन्दी या अंग्रेजी या एक प्रादेशिक भाषा को पढ़कर देना होगा; (iii) वे पैंतालिस वर्ष से नीचे की आयु के हों और स्तंभ 8 में यथा अधिकथित शारीरिक मान रखते हों और शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण किया हो।

13

14

समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

लागू नहीं होता।

- (i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —अध्यक्ष
- (ii) दो उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य
- (iii) आयकर अधिकारी —सदस्य

टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iii) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

1	2	3	4	5	6	7
15. गेस्टेटर आपरेटर (ओ जी)	1* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "स" अराजपत्रित	2610-60-2910- 65-3300-70- 4000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे फराश, सफाईवाला और चौकीदार में से प्रोन्नति जिन्होंने 4 वर्ष नियमित सेवा की हो और गेस्टेटर मशीन के प्रचालन और रखरखाव में प्रवीण हो।

13	14
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—	लागू नहीं होता।

- (i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —अध्यक्ष
- (ii) दो उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय —सदस्य
- (iii) आयकर अधिकारी —सदस्य

टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iii) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।

1	2	3	4	5	6	7
16. दफ्तरी	5* (2004) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "घ" अराजपत्रित	2610-60-2910- 65-3300-70- 4000 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10				
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता				
11	12					
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे फराश, सफाईवाला और चौकीदार में से प्रोन्नति जिन्होंने 4 वर्ष नियमित सेवा की हो					
13	14					
समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति :—		लागू नहीं होता।				
(i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय	—अध्यक्ष					
(ii) दो उपायुक्त या सहायक आयुक्त, संभार तंत्र निदेशालय	—सदस्य					
(iii) आयकर अधिकारी	—सदस्य					
टिप्पण : जहां ऊपर (i) से (iii) का कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, वहां विभाग से बाहर का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी भी सहयोजित सदस्य के रूप में होगा।						
1	2	3	4	5	6	7
17. सफाईवाला	3* (2004)	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ब"	2550-55-2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी सिवाय उन अभ्यर्थियों के जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के हैं)। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(अराजपत्रित) (अननुसचिवीय)				
8	9	10				
प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	2 वर्ष				
11	12					
शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता					

13			14			
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता।			
1	2	3	4	5	6	7
18. चौकीदार	4* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सिविल सेवा, समूह "ब" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	2550-55-2660- 60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	• 18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। सिवाय उन अभ्यर्थियों के जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के हैं रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
8			9		10	
प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण हो और होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा में "बुनियादी" और "पुनश्चर्या" पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।			लागू नहीं होता		2 वर्ष	
11			12			
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा			लागू नहीं होता			
13			14			
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता।			

1	2	3	4	5	6	7
19. फराश	3* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ब" अराजपत्रित	2550-55-2660- 60-3200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18-27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। सिवाय उन अभ्यर्थियों के जो अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के हैं। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
8			9			10
प्राथमिक विद्यालय स्तर उत्तीर्ण			लागू नहीं होता			2 वर्ष
11			12			
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा			लागू नहीं होता			
13			14			
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता।			

[फा. सं. ए.-12018/28/2003-प्रशा. III (बी)]

एस. के. ठाकुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

New Delhi, the 6th July, 2004

G.S.R. 226.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of “The Directorate of Preventive Operations (Group ‘C’ and ‘D’ posts)” Recruitment Rules, 1978, except with respects to things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group ‘C’ and ‘D’ posts in the Directorate of Logistics in the Ministry of Finance, Department of Revenue, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(i) These rules may be called the Directorate of Logistics, Ministry of Finance, Department of Revenue, Group ‘C’ and Group ‘D’ posts Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these Rules.

3. Number of Posts, Classification and Scale of Pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of Recruitment, Age Limit, other Qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Initial Constitution.—

(A) Senior Tax Assistant : (i) All the persons appointed on regular basis at the time of commencement of these rules to the Grade of Assistant shall be deemed to have been appointed as Senior Tax Assistants under these rules. The service rendered by them before commencement of these shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion to next higher grade.

(ii) The present employees would be required to pass the required or suitable departmental examination, as specified by the Competent Authority, from time to time, in Computer application and relevant procedures within two years failing which they would not be eligible for further increments.

(B) Tax Assistant (i) The persons appointed on the regular basis and holding the post of Upper Division Clerks on the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed as Tax Assistants under these rules and the service rendered by such persons in the respective posts before commencement of these rules shall be taken into account as regular service rendered on the post of Tax Assistant for the purpose of promotion etc.

(ii) Any person, who holds a post of lower Division Clerk on regular basis and falls within the seniority list as determined by the appointing authority at the commencement of these rules shall, on passing the Departmental Computer Proficiency examination conducted by the appointing authority, be deemed to have been promoted with effect from date of passing such examination on the post of Tax Assistant.

(iii) The Upper Division Clerks shall be placed en-block senior. Lower Division Clerks shall be placed below Upper Division Clerks”.

6. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether the benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pensions) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Senior Tax Assistant	2* (2004) *Subject to variation dependent on work load.	Central Civil Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any		
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made				
11	12				
100% by promotion	Promotion : Tax Assistant with 3 years of regular service in the grade and have passed the departmental examination as specified by competent Authority from time to time in computer application and relevant procedures. Note : If a junior person is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in the Grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion, notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the prescribed period of probation.				
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment				
13	14				
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.				
(i) Commissioner Directorate of Logistics	— Chariman				
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics	— Member				
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics	— Member				

13

(iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member

Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
2. Tax Assistant	11* (2004) * Subject to variation dependent on work load.	Central Civil Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
20-27 years (relaxable up to 35 years for Government Servants working in the Department in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and (not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Minimum educational qualification of Graduation in any discipline from any recognised University; (ii) Should possess a Data Entry Speed of 8000 key depression per hour.	Not applicable	2 Years

11	12
90% by Direct Recruitment 10% by promotion	Promotion : From amongst the Lower Division Clerks and Head Havaldars who have rendered 7 years of service in the Grade on regular basis and possess the following qualifications, namely :— (a) Matriculation or equivalent qualification from a recognized institution, and (b) Data Entry Speed of 5000 key depression per hour and passed the departmental examination with knowledge of typing in Hindi or English at a speed of 25 wpm and 30 wpm respectively.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.
(i) Commissioner Directorate of Logistics — Chariman	
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member	
Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
3. Lower Division Clerk	2* (2004) *Subject to variation dependent on work load.	Central Civil Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 3050-75-3590-80-4590	Non-Selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
100% by promotion	<p>(i) 50 % of the vacancies shall be filled up by promotion from amongst Havaldars and Record Keeper on the basis of seniority-cum-fitness who possess Matriculation or an equivalent qualification and have rendered 5 years regular service in the grade, without any age-limit.</p> <p>(ii) 50% of vacancies shall be filled up by promotion from amongst Havaldars, Record Keeper, Sepoys, Gestetner Operators (OG) and who possess Matriculation or an equivalent qualification and have rendered 5 years of service in the respective grade and feeder cadres thereto on the basis of a Departmental qualifying examination with typing test with minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting.</p> <p>Note : (a) The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years for the SC/ST);</p> <p>(b) The unfilled vacancies pertaining to a particular year under clause (ii) shall not be carried over;</p> <p>(c) If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualify at the said examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p>

1976/04-4

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.
(i) Commissioner, Directorate of Logistics — Chairman	
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member	
<p>Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.</p>	

1	2	3	4	5	6
4. Junior Hindi Translator	1* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
28 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In the case of recruitment is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment are asked to submit the names.	(i) Master's degree of a recognized University in Hindi or English, with English/Hindi as a compulsory or elective subject or as medium of examination at degree level. OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi and English an compulsory/ elective subjects or either of the two as medium of examination and the other as a compulsory/ elective subject at degree level. OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as a compulsory/elective subject or as medium, of examination at degree level. OR Bachelor's degree of a recognized University, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as medium of	Not applicable	Two years for Direct Recruits.

8

examination and the other as a compulsory or elective subject, plus a recognized Diploma or Certificate Course in Translation from Hindi to English and vice-versa or two year's experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in Central or State Government Offices, including Government of India Undertakings.

11	12
By transfer on deputation/transfer or by direct recruitment.	<p>Transfer on deputation/transfer : From amongst Central Government Officers holding :—</p> <p>(a)(i) analogous posts; or (ii) posts in the pay scale of Rs. 4000-6000 or equivalent with 3 years regular service in the grade; and (iii) posts in the pay scale of Rs. 3050-4590 or equivalent with 5 years regular service in the grade; and (b) possessing educational and other qualifications laid down in Column 8 for direct recruits.</p> <p>Note : Period of Deputation ordinarily not exceed 3 years but extendable to 5 years by Director General of Revenue Intelligence.</p>
13	14
Not applicable	Not applicable.

1	2	3	4	5	6
5. Stenographer Grade-II	2* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Rs. 5000-150-8000	Non Selection	Not applicable

7	8	9	10
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	(i) Matriculation or equivalent, and (ii) A speed of 100 words per minute in English or Hindi shorthand and 40 words per minute in English typewriting and 30 words per minute in Hindi typewriting.	Not applicable	Two years for direct recruits, Nil for promotees.
<p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Recruiting Agency.</p>			

11	12
By promotion failing which by transfer on deputation failing both by direct recruitment. (Direct recruitment may resorted to only when there is not enough feeder grade strength or when there is no possibility of filling up of the posts by transfer on deputation).	Promotion from amongst Stenographer Grade-III who have put in 5 years regular service in the grade; failing which Transfer on Deputation from officers of the Central Government :— (a) Holding analogous post on regular basis; or (b) with 5 years regular service in the scale of Rs. 4000-100-6000 and possessing a speed of 100 words per minute in Stenography (English or Hindi) and 40 words per minute in English typewriting or 30 words per minute in Hindi typewriting. The period of deputation including the period in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. However, the deputation period is extendable upto 5 years by Director General of Revenue Intelligence.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee: (i) Commissioner, Directorate of Logistics — Chariman (ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Member (iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member (iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member Note: Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6
6. Stenographer Grade-III	2* (2004) * Subject to variation dependant on workload.	Central Civil Service, Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial.	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
18—25 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.	(i) Matriculation or equivalent, and (ii) A speed of 80 words per minute in English or Hindi shorthand and 30 words per minute in English typewriting and 25 words per minute in Hindi typewriting.	Not applicable	2 years

11	12
Direct recruitment through Staff Selection Commission.	Not applicable
Note : Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Column 8.	

13	14
Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6
7. Driver Grade-I	1* (2004) *(Subject to the variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted; Non-Ministerial.	Rs. 4500-125- 7000	Non-selection	Not applicable

7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
100% by promotion	Promotion : From the Grade II Drivers in the Directorate of Logistics, Central Excise and Customs with six years regular service who have passed a trade test of appropriate standard as prescribed below : <ul style="list-style-type: none"> (i) must be able to read English Numerals and figures; (ii) must have a thorough knowledge of Traffic Regulations; (iii) must have good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects; (iv) must be able to clear carburettor plug, etc. Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher cadre along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) Commissioner, Directorate of Logistics — Chariman	
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member	
Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
8. Driver Grade- II	1* (2004) *(Subject to the variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted; Non-Ministerial.	Rs. 4000-100- 6000	Non-selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		

11	12
100% by promotion	Promotion from the Drivers (Ordinary Grade) in the Directorate of Logistics with 9 years regular service who have passed a trade test of appropriate standard specified below : (i) must be able to read English Numerals and figures; (ii) must be able to locate faults and carry out minor running repairs; (iii) must have good knowledge of Traffic Regulations; (iv) must be able to change wheels and correctly inflate tyres;

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) Commissioner, Directorate of Logistics — Chariman	
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax — Member	
Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
9. Driver (Ordinary Grade)	2* (2004) *(Subject to the variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted; Non-Ministerial.	Rs. 3050-75- 3950-80-4590	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
23-30 years (Relaxable upto 35 years in the case of Government servants and upto 40 years for departmental candidates, in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government). Note: The crucial date for deter- mining the age limit shall be the closing date for receipt of appli- cations from candidates in India (and not the closing date pres- cribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).	Essential : Possession of a valid driving licence for motor cars. Knowledge of motor mechanics and experience in driving a motor car for at least five years. Desirable : Passed VIII standard from recognized Board or Institution.	Not applicable	2 years

11	12
By absorption, failing which by direct recruitment.	Absorption : On the results of the test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in driving of staff cars from amongst regular and Group "D" employees in the Directorate of Logistics, Central Excise and Customs possessing qualifications in column 8 or absorption of persons holding the post of Staff Car Driver in other Ministries or Department. Note : The Candidates will be required to confirm to such age limits as may be specified by the Central Board of Excise and Customs from time to time.

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) Commissioner, Directorate of Logistics	— Chairman
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iii) Assistant Commissioner of Income Tax	— Member
Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
10. Senior Gestetner Operator	1* (2004) * Subject to change depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-Selection	Not applicable
7	8		9		10
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable
11			12		
100% by promotion			Promotion from amongst Gestetner Operator (OG) and Daftry with 4 years regular service who are proficient in operating and maintaining Gestetner Machine.		

13	14
Group 'C' Departmental Promotion Committee :	Not applicable
(i) Commissioner, Directorate of Logistics	— Chariman
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax	— Member
Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Schedule Castes or the Schedule Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
11. Record Keeper	1* (2004) *Subject to change depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2750-70-3800-75-4400	Non-Selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12				
100% by promotion	Promotion from amongst Gestetner Operator (OG) and Dafry with 4 years regular service.				
13	14				
Group 'C' Departmental Promotion Committee :			Not applicable		
(i) Commissioner Directorate of Logistics		—	Chariman		
(ii) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics		—	Member		
(iii) Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics		—	Member		
(iv) Assistant Commissioner of Income Tax		—	Member		
Note : Where none of the officer (i) to (iv) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.					
1	2	3	4	5	6
12. Head Havaladar	3* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 3050-75-3950-80-4590	Non-Selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12				
100% by promotion	Promotion : From the grade of Havaladar with 3 years regular service in the grade.				

197662/04-5

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.
(i) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Chariman	
(ii) Two Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Income Tax Officer — Member	

Note : Where none of the officer (i) to (iii) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
13. Havaladar	6* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 2750-70-3800-75-4400	Non-Selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12				
100% by promotion	Promotion from the grade of Sepoy with 3 years regular service in the grade.				

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.
(i) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Chariman	
(ii) Two Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member	
(iii) Income Tax Officer — Member	

Note : Where none of the officer (i) to (iii) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
14. Sepoy	9* (2004) *Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group 'D' Non-Gazetted; Non-Ministerial.	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
18—27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked.	Middle Standard Note : Candidates will be required to possess the Physical standards and pass physical test as specified below, namely :— For Male Candidates Physical standard (minimum): Height—157.5 cms. (relaxable by 5 cms. In the case of Garhwalis, Assamese, Gorkhas and members of the Scheduled Tribes). Chest—81 cms. (fully expanded with minimum expansion of 5 cms.) Physical Test : Walking—1600 metres in 15 minutes Cycling—8 kms. in 30 minutes. For Female Candidates Physical standard (minimum): Height—152 cms. Weight—48 kgs. (Height relaxable by 2.5 cms. and weight by 2 kgs. For Garhwalis, Assamese, Gorkhas and the member of the Scheduled Tribes). Physical Test : Walking—1 km. in 20 minutes Cycling—3 kms. in 25 minutes. Note : The above physical standards/ tests shall also be applicable for filling up the post by promotion, if any.	Not applicable	2 years
11	12		
85% by direct recruitment. 15% by absorption.	Absorption from the cadre of Farash, Chowkidar, Safaiwala and other Group 'D' employees, (provided the pay scale of the post held by such Group 'D' employees is the same as that of Farashes, Chowkidars, Safaiwalas) in the Directorate of Logistics subject to the following conditions, namely :— (i) they shall have put in at least five years regular service. (ii) they should possess at least elementary literacy and given proof through a test of ability to read either Hindi or English or a regional language; and (iii) they are below Forty Five years of age and possess such physical standards and pass such physical test as laid in column 8.		
13	14		
Group 'D' Departmental Promotion Committee :	Not applicable.		
(i) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics	— Chariman		
(ii) Two Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics	— Member		
(iii) Income Tax Officer	— Member		

13

Note : Where none of the officer (i) to (iii) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
15. Gestetner Operator (OG)	1* (2004) * Subject to change depending on workload.	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000	Non-Selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12				
100% by promotion	Promotion from amongst Farash, Safaiwala and Chowkidar with 4 years regular service who are proficient in operating and maintaining Gestetner Machine.				

13

14

Group 'D' Departmental Promotion Committee :

Not applicable

- (i) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics — Chariman
- (ii) Two Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics — Member
- (iii) Income Tax Officer — Member

Note : Where none of the officer (i) to (iii) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.

1	2	3	4	5	6
16. Daftry	5* (2004) * Subject to change depending on workload.	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000	Non-Selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
11	12				
100% by promotion	Promotion from amongst Farash, Safaiwala and Chowkidar with 4 years regular service.				

13	14
Group 'D' Departmental Promotion Committee:	Not applicable
(i) Additional Commissioner or Joint Commissioner, Directorate of Logistics	— Chariman
(ii) Two Deputy Commissioner or Assistant Commissioner, Directorate of Logistics	— Member
(iii) Income Tax Officer	— Member
Note : Where none of the officer (i) to (iii) above belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe category, an officer from outside the Department belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall also be associated as a member.	

1	2	3	4	5	6
17. Safaiwala	3* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group 'D' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government).	Primary School Standard pass	Not applicable	2 years
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked.			

11	12
100% by Direct Recruitment	Not applicable
13	14
Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6
18. Chowkidar	4* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	Central Civil Service, Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200.	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
---	---	---	----

18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked.	Primary School Standard pass AND Training in 'Basic' and 'Refresher' courses in Home Guard and Civil Defence.	Not applicable	2 years
--	---	----------------	---------

11	12
100% by direct recruitment	Not applicable

13	14
Not applicable	Not applicable

1	2	3	4	5	6
19. Farash	3* (2004) * Subject to change depending on workload.	General Central Service, Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable

7	8	9	10
---	---	---	----

18-27 years (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Primary School Standard pass	Not applicable	2 years
--	------------------------------	----------------	---------

7	8	9	10
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In the case of recruitment is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.			
11	12		
100% by direct recruitment	Not applicable		
13	14		
Not applicable	Not applicable		
[F. No. A-12018/28/2003-Ad. III(B)] S. K. THAKUR, Under Secy.			

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 28 जून, 2004

सा.का.नि. 227.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देते हैं कि भारत सरकार के तत्कालीन विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. 585 तारीख 1 फरवरी, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

(क) मद संख्यांक और शीर्षक " 26 मंत्रिमंडल सचिवालय (सांख्यिकी विभाग) के मामले में " के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

" 26 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मामले में "

(ख) उपरोक्त (क) द्वारा इस प्रकार प्रतिस्थापित मद और शीर्षक के अधीन निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

" च " कम्प्यूटर केन्द्र के मामले में "

भूमि और उपस्करों जिनके अन्तर्गत साफ्टवेयर और उनका अनुरक्षण, परामर्श तथा अन्य सेवाएं भी हैं, के क्रय के संबंध में सभी संविदाओं और शर्तों को, उप महानिदेशक या कार्यालय के प्रधान अर्थात् ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

[सं. 17(1)/2004-न्यायिक]

डी. आर. मीना, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना, अधिसूचना सं. सा. का. नि. 585, तारीख 1 फरवरी, 1966 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई :—

1. सा.का.नि. सं. 168 तारीख 05-03-1990
2. सा.का.नि. सं. 541 तारीख 19-07-1990
3. सा.का.नि. सं. 542 तारीख 19-07-1990
4. सा.का.नि. सं. 711 तारीख 14-11-1990
5. सा.का.नि. सं. 713 तारीख 15-11-1990
6. सा.का.नि. सं. 578 तारीख 27-08-1991
7. सा.का.नि. सं. 333 तारीख 09-07-1992
8. सा.का.नि. सं. 497 तारीख 16-10-1992
9. सा.का.नि. सं. 540 तारीख 14-10-1993
10. सा.का.नि. सं. 601 तारीख 16-11-1993
11. सा.का.नि. सं. 2052 तारीख 31-08-1994
12. सा.का.नि. सं. 620 तारीख 26-11-1994
13. सा.का.नि. सं. 36 तारीख 06-01-1995
14. सा.का.नि. सं. 456 तारीख 27-09-1996
15. सा.का.नि. सं. 313 तारीख 05-08-1997
16. सा.का.नि. सं. 285 तारीख 28-06-1995
17. सा.का.नि. सं. 230 तारीख 15-07-1999
18. सा.का.नि. सं. 240 तारीख 19-07-1999
19. सा.का.नि. सं. 406 तारीख 01-11-1999
20. सा.का.नि. सं. 394 तारीख 18-11-1999
21. सा.का.नि. सं. 108 तारीख 21-02-2000
22. सा.का.नि. सं. 80 तारीख 25-02-2000
23. सा.का.नि. सं. 460 तारीख 13-11-2000
24. सा.का.नि. सं. 166 तारीख 26-02-2001
25. सा.का.नि. सं. 31 तारीख 07-01-2002
26. सा.का.नि. सं. 454 तारीख 29-10-2002
27. सा.का.नि. सं. 487 तारीख 18-11-2002
28. सा.का.नि. सं. 35 तारीख 09-01-2003
29. सा.का.नि. सं. 66 तारीख 31-01-2003
30. सा.का.नि. सं. 139 तारीख 26-03-2003
31. सा.का.नि. सं. 184 तारीख 22-04-2003
32. सा.का.नि. सं. 14 तारीख 30-12-2003
33. सा.का.नि. सं. 15 तारीख 15-12-2003
34. सा.का.नि. सं. — तारीख 21-06-2004

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 28th June, 2004

G.S.R. 227.—In exercise of the powers conferred under clause (1) of article 299 of the Constitution, the President hereby directs that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India in the then Ministry of Law (Department of Legal Affairs) *vide* G.S.R. No. 585 dated the 1st February, 1966, namely :—

In the said notification,—

- (a) for item number and heading “XXVI. IN THE CASE OF CABINET SECRETARIAT (DEPARTMENT OF STATISTICS)” the following item number and heading shall be substituted namely :—
“XXVI. IN THE CASE OF MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION”;
- (b) under the item and heading so substituted by (a) above, the following shall be added, namely :—

“F. In the case of Computer Centre”;

All contracts and instruments relating to purchase of land and equipments including Software and maintenance thereof, consultancy and other services shall be executed by Deputy Director General or Head of Office *viz.* Senior Administrative Officer.”

[No. 17(1)/2004-Judl.]

D.R. MEENA, Jt. Secy. and Legal Adviser

Foot note : The principal notification was published *vide* notification No. G.S.R. 585, dated the 1st February, 1966 and subsequently amended *vide* :—

1. G.S.R. No. 168 dated 05-03-1990
2. G.S.R. No. 541 dated 19-07-1990
3. G.S.R. No. 542 dated 19-07-1990
4. G.S.R. No. 711 dated 14-11-1990
5. G.S.R. No. 713 dated 15-11-1990
6. G.S.R. No. 570 dated 27-08-1991
7. G.S.R. No. 333 dated 09-07-1992
8. G.S.R. No. 497 dated 16-10-1992
9. G.S.R. No. 540 dated 14-10-1993
10. G.S.R. No. 601 dated 16-11-1993
11. G.S.R. No. 2052 dated 31-08-1994
12. G.S.R. No. 620 dated 25-11-1994
13. G.S.R. No. 36 dated 06-01-1995
14. G.S.R. No. 456 dated 27-09-1996
15. G.S.R. No. 313 dated 05-08-1997
16. G.S.R. No. 285 dated 28-06-1995
17. G.S.R. No. 230 dated 15-07-1999
18. G.S.R. No. 240 dated 19-07-1999
19. G.S.R. No. 406 dated 01-11-1999
20. G.S.R. No. 394 dated 18-11-1999
21. G.S.R. No. 108 dated 21-02-2000
22. G.S.R. No. 80 dated 25-02-2000
23. G.S.R. No. 460 dated 13-11-2000
24. G.S.R. No. 166 dated 26-02-2001
25. G.S.R. No. 31 dated 07-01-2002
26. G.S.R. No. 454 dated 29-10-2002
27. G.S.R. No. 487 dated 18-11-2002
28. G.S.R. No. 35 dated 09-01-2003
29. G.S.R. No. 66 dated 31-01-2003
30. G.S.R. No. 139 dated 26-03-2003
31. G.S.R. No. 184 dated 22-04-2003
32. G.S.R. No. 14 dated 30-12-2003
33. G.S.R. No. 15 dated 31-12-2003
34. G.S.R. No. — dated 21-06-2004

19/662/04 - 6

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2004

सा.का.नि. 228.—वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग विमानपत्तन के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेजे जा सकेंगे।

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (.....संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में,—

(1) नियम 35 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1) “कुल मिलाकर 15,000 किलोग्राम सहित अधिकतम उत्पन्न भार तक के विमान के लिए बीस हजार रुपए का शुल्क और इसके साथ प्रत्येक 1,000 किलोग्राम या इसके किसी भाग के लिए पांच हजार रुपए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए देय होंगे और इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए अधिकतम उत्पन्न भार वायुयान के उड़ान निर्देशिका में दर्शाए अनुसार होगा।

(ख) उपनियम (2) में “पचास रुपए” शब्दों के स्थान पर “रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए देय शुल्क का दस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उपनियम (3) में “एक सौ रुपए” शब्दों के स्थान पर “रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए देय शुल्क का पच्चीस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

(घ) उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3 क) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए देय शुल्क का पचास प्रतिशत शुल्क पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए देय होगा।”;

(2) नियम 48 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) अनुज्ञप्तियों और रेटिंग्स के जारी करने, नवीकरण और वैधकरण के लिए या डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए और ऐसे अनुज्ञप्तियों और रेटिंग्स के परीक्षणों और परीक्षा हेतु निम्नलिखित शुल्क देय होगा :—

1	2	3
(1)	परीक्षा के लिए	प्रति पेपर पांच सौ रुपए
(2)	विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति के सिवाय एक अनुज्ञप्ति या रेटिंग के जारी करने या वैधकरण के लिए	पांच हजार रुपए
(3)	विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति के सिवाय एक अनुज्ञप्ति या रेटिंग के नवीकरण के लिए	दो हजार पांच सौ रुपए
(4)	विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति के लिए एक अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने या वैधकरण के लिए	एक हजार रुपए
(5)	विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति के लिए एक अनुज्ञप्ति या रेटिंग के नवीकरण के लिए	पांच सौ रुपए
(6)	विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति के सिवाय डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति या रेटिंग जारी करने के लिए	पांच सौ रुपए
(7)	डुप्लीकेट विद्यार्थी पायलट अनुज्ञप्ति और ग्लाइडर पायलट अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए	दो सौ पचास रुपए

- (ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
 “(2) सभी उड़ान परीक्षणों के लिए अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह वायुयान की व्यवस्था करे और उड़ान से संबंधित सभी प्रभारों को वहन करे। यदि उड़ान परीक्षणों के दौरान सरकारी परीक्षक वायुयान पर ले जाया जाता है तो केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित दर से फीस देय होगी, अर्थात् :—
- | | |
|--|----------------|
| 1. एकल इंजिन वायुयान के लिए | पांच हजार रुपए |
| 2. 5,700 किलोग्राम से कम अधिकतम उत्पत्तन भार वाले बहुइंजिन वायुयान के लिए | दस हजार रुपए |
| 3. 5,700 किलोग्राम और उससे अधिक, 50,000 किलोग्राम सहित, तक के अधिकतम उत्पत्तन भार वाले बहुइंजिन वायुयान के लिए | पचास हजार रुपए |
| 4. 50,000 किलोग्राम से अधिक, अधिकतम उत्पत्तन भार वाले बहुइंजिन वायुयान के लिए | एक लाख रुपए।” |
- (ग) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात् :—
 “(2क) इस नियम के अधीन देय शुल्क का भुगतान लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागर विमानन विभाग, नई दिल्ली के नाम रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।”;
- (3) नियम 62 में,—
- (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—
 “(1) टाइप प्रमाणपत्र के जारी करने या विधिमार्ग्यता उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र के जारी करने, नवीकरण या विधिमार्ग्यकरण और अनुज्ञप्ति जारी करना, नैत्रीकरण या इसमें परिवर्तन, इस भाग द्वारा अपेक्षित प्राधिकार, अनुमोदन या सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए निम्नलिखित फीस देय होगी, अर्थात् :—
- (क) नियम 49 क के अधीन टाइप प्रमाणपत्र जारी करना :—
- | | |
|---|--|
| (i) वायुयान के लिए | 1000 किलोग्राम सहित और अधिकतम डिजाइन, उत्पत्तन भार तक के वायुयान के लिए बीस हजार रुपए तथा प्रति 1000 किलोग्राम या इसके भाग के लिए दस हजार रुपए और उक्त फीस के प्रयोजन के लिए अधिकतम उत्पत्तन भार वायुयान के उड़ान निर्देशिका में दर्शाए गए के अनुसार होगी। |
| (ii) इंजनों के लिए | दो लाख रुपए |
| (क) प्रत्यागामी | पांच लाख रुपए |
| (ख) टर्बो प्रॉप | दस लाख रुपए |
| (ग) टर्बो जेट | (i) के सामने विनिर्दिष्ट फीस तथा ऐसी फीस का बीस प्रतिशत |
| (iii) हेलीकॉप्टर के लिए | बीस हजार रुपए प्रति उपकरण |
| (iv) वायुयान संघटकों, उपस्करों, उपकरणों और अन्य ऐसे ही पुर्जों, जब उनके संबंध में पृथक् रूप से कार्रवाई की जाए। | |
- (ख) नियम 49 ख के अधीन टाइप प्रमाणपत्र का विधिमार्ग्यकरण :—
- | | |
|--|--|
| (i) प्रचालनों के प्रयोजनों के लिए टाइप प्रमाणपत्र के विधिमार्ग्यकरण की फीस इस उपनियम के अधीन विनिर्दिष्ट टाइप प्रमाणपत्र जारी करने के लिए देय फीस का 25 प्रतिशत होगी। | |
| (ii) अनुज्ञप्ति प्राप्त उत्पादन के प्रयोजनों के लिए टाइप प्रमाणपत्र के विधिमार्ग्यकरण की फीस, इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट टाइप प्रमाणपत्र जारी करने के लिए देय फीस का पचास प्रतिशत होगी। | |
- (ग) नियम 50 के अधीन उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र जारी करना, नवीकरण या विधिमार्ग्यकरण :—
- | | |
|---|--|
| (i) उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र जारी करना | 1,000 किलोग्राम सहित और अधिकतम उत्पत्तन भार तक के विमान के लिए बीस हजार रुपए तथा प्रति एक हजार किलोग्राम या इसके भाग के लिए दो हजार रुपए और उक्त फीस के प्रयोजन के लिए अधिकतम उत्पत्तन भार वायुयान के उड़ान निर्देशिका में दर्शाए गए के अनुसार होगा। |
| (ii) उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र का विधिमार्ग्यकरण या नवीकरण | (i) के सामने विनिर्दिष्ट उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फीस का पचास प्रतिशत। |
| (iii) डुप्लीकेट उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र जारी करना | (i) के सामने विनिर्दिष्ट उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फीस का दस प्रतिशत। |

(घ) नियम 61 के अधीन वायुयान अनुरक्षण इंजीनियरों या प्राधिकृत व्यक्तियों या अनुमोदित व्यक्तियों या सक्षमता प्रमाणपत्र धारकों के संबंध में अनुज्ञप्ति, प्राधिकार, अनुमोदन या सक्षमता प्रमाणपत्र के जारी करने, नवीकरण या पृष्ठांकन के लिए फीस :—

- | | |
|--|-------------------------|
| (i) परीक्षा | पांच सौ रुपए प्रति पेपर |
| (ii) अनुज्ञप्ति या रेटिंग प्राधिकार अनुमोदन या सक्षमता प्रमाणपत्र के जारी करना या विधिमाम्यकरण | पांच हजार रुपए |
| (iii) अनुज्ञप्ति रेटिंग, प्राधिकार, अनुमोदन, सक्षमता प्रमाणपत्र का नवीकरण या अनुज्ञप्ति का पुनः विधिमाम्यकरण | दो हजार पांच सौ रुपए |
| (iv) डुप्लीकेट अनुज्ञप्ति, रेटिंग प्राधिकार, अनुमोदन या सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करना | पांच सौ रुपए |

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) इस नियम के अधीन देय शुल्क का भुगतान, लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन और लेखा कार्यालय, नागर विमानन विभाग, नई दिल्ली के नाम रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर या मांग देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।"

(4) नियम 87 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"87. फीस—(1) विमान क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति हेतु प्रभार्य फीस इसके नीचे यथाविनिर्दिष्ट होगी, अर्थात् :—

- | | |
|---|---|
| (i) जब अनुज्ञप्ति निजी प्रयोग के लिए दी जाए | एक लाख रुपए |
| (ii) जब अनुज्ञप्ति सार्वजनिक प्रयोग के लिए दी जाए | 5,000 फुट तक की लम्बाई वाले रनवे सहित पांच लाख रुपए और प्रति 1000 फुट या इसके भाग के लिए दो लाख रुपए। |

(2) विमान क्षेत्र हेतु अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रभार्य फीस इसके नीचे यथाविनिर्दिष्ट होगी, अर्थात् :—

- | | |
|--|---|
| (i) जब अनुज्ञप्ति का निजी प्रयोग के लिए नवीकरण किया गया हो | पचास हजार रुपए |
| (ii) जब अनुज्ञप्ति का नवीकरण सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया गया हो | 5,000 फुट तक की रनवे लम्बाई सहित दो लाख पचास हजार रुपए और प्रति 1,000 फुट या इसके भाग के लिए एक लाख रुपए। |

(3) इस नियम के अधीन देय फीस का भुगतान लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन और लेखा कार्यालय, नागर विमानन विभाग, नई दिल्ली के नाम मांग देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।"

(5) नियम 133ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"133ग. फीस—(1) नियम 133ख के अनुसार कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी संगठन या व्यक्ति को अनुमोदन देने के लिए किए गए किसी निरीक्षण, परीक्षा या परीक्षण के लिए एक लाख रुपए की फीस देय होगी।

- (2) नियम 133ख के अनुसार कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी संगठन या व्यक्ति को अनुमोदन का नवीकरण या इसकी वृद्धि के लिए किए गए किसी भी निरीक्षण, परीक्षा या परीक्षण के लिए पचास हजार रुपए की फीस देय होगी।
- (3) इस नियम के अधीन किसी भी संगठन या व्यक्ति से वायुयान ईंधन लूब्रिकेंट्स और ऐसे ही अन्य उत्पाद जिनका अपने स्वयं के वायुयान के लिए प्रयोग किया जाना है उसके भंडारण, वितरण और आपूर्ति के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी।
- (4) उपनियम (1) या उपनियम (2) में निर्दिष्ट अनुमोदन, विस्तार की विधिमाम्यता या अनुमोदन के नवीकरण की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (5) इस नियम के अधीन देय फीस का भुगतान लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन और लेखा कार्यालय, नागर विमानन विभाग, नई दिल्ली के नाम मांग देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

(6) अनुसूची 11 के पैरा 5 में,—

(i) उपपैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) उप पैरा (1) के अधीन महानिदेशक को भेजे गए प्रत्येक आवेदन के साथ पच्चीस हजार रुपए की फीस देय होगी।"

(ii) उप पैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरे अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(4) पैरा 1 में निर्दिष्ट अनुज्ञा जारी करने के लिए दस लाख रुपए की फीस देय होगी और ऐसी अनुज्ञा के नवीकरण के लिए पांच लाख रुपए की फीस देय होगी।"

"(5) इस पैरा के अधीन देय फीस का भुगतान लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन और लेखा कार्यालय, नागर विमानन विभाग, नई दिल्ली के नाम मांग देय ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।"

[फा. सं. एवी. 11012/4/2002-ए]

एम. एस. चोपड़ा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना सं. वी-26 तारीख 23 मार्च, 1937 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. 207 (अ) तारीख 5 मार्च, 2003 द्वारा इनमें अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 30th June, 2004

G.S.R. 228.—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Aircraft (.....Amendment) Rules, 2004.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Aircraft Rules, 1937,—
 - (1) in rule, 35,—
 - (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) A fee of rupees twenty thousand for aircraft with a maximum take-off weight upto and including 15,000 kilograms plus rupees five thousand for every 1000 kilograms or part thereof, shall be payable for the issue of a certificate of registration and the maximum take-off weight for the purposes of this sub-rule shall be as indicated in the Flight Manual of the aircraft.”
 - (b) in sub-rules (2), for the words “fifty rupees” the words “ten per cent of the fee payable for the issue of the certificate of registration” shall be substituted;
 - (c) in sub-rules (3), for the words “one hundred rupees” the words “twenty five per cent of the fee payable for the issue of the certificate of registration” shall be substituted;
 - (d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted namely :—

“(3A) A fee of fifty per cent of the fee payable for issue of certificate of registration under sub-rule (1) shall be payable for renewal of certificate of registration.”
 - (2) in rule, 48,—
 - (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) The following fees shall be payable for the issue, renewal and validation of licences and ratings or the issue of duplicate licences and for the tests and examinations for such licences and ratings :—

(1)	(2)	(3)
1. For examination.		Rupees five hundred per paper.
2. For issue or validation of a rating except Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence		Rupees five thousand.
3. For renewal of a licence or rating except Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence		Rupees two thousand five hundred.
4. For issue or validation of a licence or rating for Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence		Rupees one thousand
5. For renewal of a licence or rating for Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence		Rupees five hundred
6. For issue of duplicate licence or rating except Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence		Rupees five hundred
7. For issue of duplicate Student Pilot's Licence and Glider Pilot's Licence		Rupees two hundred fifty.”;

- (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
 “(2) For all the flying tests, the candidate shall be required to provide the aircraft and bear all charges in respect of the flight. If a Government Examiner is carried on board during the flying test, the fees at the following rates shall be payable to the Central Government, namely :—
- | | |
|---|-----------------------|
| (i) For a single-engine aircraft | Rupees five thousand |
| (ii) For a multi-engine aircraft with maximum take-off weight less than 5,700 kilograms | Rupees ten thousand |
| (iii) For a multi-engine aircraft with maximum take-off weight of 5,700 kilograms and more up to and including 50,000 kilograms | Rupees fifty thousand |
| (iv) For a multi-engine aircraft with maximum take-off weight more than 50,000 kilograms | Rupees one lakh.”; |
- (c) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely :—
 “(2A) The fees payable under this rule shall be paid by crossed Indian Postal Order or Demand Draft drawn in favour of the Accounts Officer, Central Pay and Accounts Office, Civil Aviation Department, New Delhi.”;
- (3) in rules, 62,—
- (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
 “(1) The following fees shall be payable for issue or validation of Type Certificate, issue, renewal or validation of Certificate of Airworthiness and issue, renewal or modification in the scope of licence, Authorisation, Approval or Certificate of Competency required by this part, namely :—
- (A) Issue of Type Certificate under rule 49A :
- | | |
|--|---|
| (i) For aircraft : | Rupees twenty thousand for aircraft with a maximum design take-off weight up to and including 1,000 kilograms plus rupees ten thousand for every 1000 kilograms or part thereof and the maximum take-off weight for the purpose of the said fee shall be as indicated in the Flight Manual of the aircraft. |
| (ii) For engines : | |
| (a) Reciprocating : | Rupees two lakh; |
| (b) Turbo prop : | Rupees five lakh; |
| (c) Turbo jet : | Rupees ten lakh. |
| (iii) For helicopter : | The fees specified against (i) plus twenty per cent of such fee. |
| (iv) For aircraft components, equipment, instruments and other similar parts, when processed individually. | Rupees twenty thousand each. |
- (B) Validation of Type Certificate under Rule 49B :
- | | |
|--|--|
| (i) The fees for validation of Type Certificate for the purpose of operations shall be twenty five per cent of the payable for issue of Type Certificate specified under this sub-rule. | |
| (ii) The fees for validation of Type Certificate for the purposes of licenced production shall be fifty per cent of the fee payable for issue of Type Certificate specified under this sub-rule. | |
- (C) Issue, renewal or validation of Certificate of Airworthiness under rule 50 :
- | | |
|--|--|
| (i) Issue of Certificate of Airworthiness : | Rupees twenty thousand for aircraft with a maximum take-off weight up to and including 1,000 kilograms plus rupees two thousand for every 1000 kilograms or part thereof and the maximum take-off weight for the purpose of the said fee shall be as indicated in the Flight Manual of the aircraft. |
| (ii) Validation or renewal of Certificate of Airworthiness : | Fifty per cent of the fees for issue of Certificate of Airworthiness specified against (i). |
| (iii) Issue of duplicate Certificate of Airworthiness : | Ten per cent of the fees for issue of Certificate of Airworthiness specified against (i). |

- (D) Fee for issue, renewal or endorsement in scope of a licence, Authorization, Approval or Certificate of Competency in respect of Aircraft Maintenance Engineers or Authorized persons or Approved persons or Certificate of Competency holder under rule 61 :
- | | |
|---|----------------------------------|
| (i) Examination : | Rupees five hundred per paper |
| (ii) Issue or validation of a licence or rating, Authorization, Approval or Certificate of Competency : | Rupees five thousand |
| (iii) Renewal of a licence, rating, Authorization, Approval, Certificate of Competency or revalidation of a licence : | Rupees two thousand five hundred |
| (iv) Issue of duplicate licence, rating, Authorization, Approval or Certificate of Competency : | Rupees five hundred. |
- (b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
“(2) The fees payable under this rule shall be paid by crossed Indian Postal Order or Demand Draft drawn in favour of the Accounts Officer, Central Pay and Accounts Office, Civil Aviation Department, New Delhi.”;
- (c) for rule 87, the following rule shall be substituted, namely :—
“87 Fees.—(1) The fees chargeable for the grant of a licence for an aerodrome shall be as specified hereunder, namely :—
- | | |
|---|---|
| (i) When the licence is granted for private use : | Rupees one lakh |
| (ii) When the licence is granted for public use : | Rupees five lakh up to and including runway length of 5,000 feet plus rupees two lakh for every 1,000 feet or part thereof. |
- (2) The fees chargeable for renewal of a licence for an aerodrome shall be as specified hereunder, namely :—
- | | |
|---|---|
| (i) When the licence is renewed for private use : | Rupees fifty thousand. |
| (ii) When the licence is renewed for public use : | Rupees two lakh fifty thousand up to and including runway length of 5,000 feet plus rupees one lakh for every 1,000 feet or part thereof. |
- (3) The fee payable under this rule shall be paid by Demand Draft drawn in favour of Accounts Officer, Central Pay and Accounts Office, Civil Aviation Department, New Delhi.”;
- (5) for rule 133C, the following rule shall be substituted, namely :—
“133C. Fees.—(1) A fee of rupees one lakh shall be payable for any inspection, examination or test carried out for grant of approval to an organization or person to perform any activity in accordance with rule 133B.
(2) A fee of rupees fifty thousand shall be payable for any inspection, examination or test carried out for grant of extension or renewal of approval granted to an organization or person to perform any activity in accordance with rule 133B.
(3) No fee shall be charged to an organization or person under this rule for storage, distribution and supply of aircraft fuel, lubricants and similar other products intended to be used for its own aircraft.
(4) The period of validity of approval, extension or renewal of approval referred to in sub-rule (1) of sub-rule (2) shall not exceed one year.
(5) The fees payable under this rule shall be paid by Demand Draft drawn in favour of the Accounts Officer, Central Pay and Accounts Office, Civil Aviation Department, New Delhi.”;
- (6) in Schedule XI, in paragraph 5,—
- (i) for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—
“(3) A fee of rupees twenty five thousand shall be payable for making every application to the Director-General under sub-paragraph (1).”;
- (ii) after sub-paragraph (3), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely :—
“(4) A fee of rupees ten lakh shall be payable for issue of a permission referred to in paragraph 1 and a fee of rupees five lakh shall be payable for renewal of such permission.
(5) The fees payable under this paragraph shall be paid by Demand Draft drawn in favour of the Accounts Officer, Central Pay and Accounts Office, Civil Aviation Department, New Delhi.”.

[F. No. AV. 11012/4/2002-A]

M.S. CHOPRA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Official Gazette vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by G.S.R. 207(E) dated the 5th March, 2003 published in Part II, Section (3), Sub-section (i) of the Gazette of India.

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
(कृषि विपणन प्रभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 जून, 2004

सा.का.नि. 229.—दिनांक 29 मार्च, 2003 को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के दिनांक 12 मार्च, 2003 के सा.का.नि. 133 की अधिसूचना के साथ संलग्न नोट में पृष्ठ 711 पर, पंक्ति 19 में, "23 फरवरी 1985" के पश्चात् "और तदन्तर सा.का.नि. 954 के द्वारा संशोधित, दिनांक, 29 नवम्बर, 1989" जोड़ा जाए।

[सं. 12018/2/2002-एम-1]

एस. के. गाड़ी, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
(Marketing Division)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th June, 2004

G.S.R. 229.—In the Note appended to the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, number G.S.R. 133 dated the 12th March, 2003 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 29th March, 2003, at page 711, in line 19, after "23rd February, 1985" insert "and subsequently amended vide G.S.R. 954 dated the 29th November, 1989".

[No. 12018/2/2002-M. I]

S.K. GADI, Under Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 जून, 2004

सा.का.नि. 230.—जल संसाधन मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण में विधि सलाहकार के पद संबंधी भर्ती नियमों को संशोधित करते हुए दिनांक 3 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्धन किए जाएं :—

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (विधि सलाहकार)

संशोधन नियम, 2003 (2004 का सा.का.नि. 6)

- (i) अधिसूचना के संक्षिप्त शीर्षक में "इन नियमों को केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (विधि सलाहकार) संशोधन नियम, 2003 कहा जा सकता है" की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "इन नियमों को केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (विधि सलाहकार) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004" पढ़ा जाए।
- (ii) "पदों की संख्या" से संबंधित अनुसूची के कालम 2 के तहत मौजूदा प्रविष्टि "1*(2003)* कार्यभार पर आधारित परिवर्तन के अधीन" के स्थान पर प्रविष्टि "1*(2004)* कार्यभार पर आधारित परिवर्तन के अधीन" पढ़ा जाए।

[सं. 21/15/99-भूजल-1]

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES
CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th June, 2004

G.S.R. 230.—In the following Notification published in the Gazette of India Part-II, Section 3(i) dated the 3rd January, 2004 notifying the amendment to Recruitment Rules for the post of Legal Advisor in the Central Ground Water Authority a subordinate office of the Ministry of Water Resources, the following corrections/additions may be made :

The Central Ground Water Authority (Legal Advisor) Amendment Rules, 2003 (G.S.R. 6 of 2004) :—

- (i) In the short title of the Notification for the entry "These Rules may be called the Central Ground Water Authority (Legal Advisor) Amendment Rules, 2003" the entry "These Rules may be called the Central Ground Water Authority (Legal Advisor) Recruitment (Amendment) Rules, 2004" may be read.
- (ii) Under Column 2 of the Schedule relating to "Number of posts" in place of the existing entry "1*(2003)*Subject to variation dependent on workload" the entry "1* (2004) *Subject to variation dependent on workload" may be read.

[No. 21/15/99-GW. I]

SOHAN S. SAINI, Under Secy.